

सीएसआईआर - केन्द्रीय इलेक्ट्रॉनिकी अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान पिलानी (राजस्थान)

सं.35(4)/2011-रा.भा.(यो-1)

दिनांक 14.01.2015

कार्यालय ज्ञापन

विषय: सीएसआईआर-सीरी मूल हिंदी टिप्पण/आलेखन प्रोत्साहन योजना ।

संस्थान की राजभाषा कार्यान्वयन समिति की दिनांक 7.11.2014 को हुई बैठक में की गई अनुशंसा पर निदेशक, सीएसआईआर-सीरी ने संस्थान के विभिन्न प्रशासनिक/तकनीकी अनुभागों में कार्यरत कर्मचारियों के लिए 1 सितंबर 2014 से 31 अगस्त 2015 तक की अवधि के लिए उपर्युक्त योजना को लागू करने का सहर्ष अनुमोदन किया है। योजना का विवरण निम्नवत है -

(क) पात्रता


सभी श्रेणियों के वे अधिकारी/कर्मचारी जो सरकारी कार्य पूर्णतः या कुछ हद तक मूलरूप से हिंदी में करते हैं। इस योजना में फाइलों पर हिंदी में किया गया कार्य, रजिस्टर आदि में इंदराज, सूची तैयार करना, लेखा कार्य आदि जिनका सत्यापन किया जा सके, शामिल किए जाएंगे।

(ख) पुरस्कारों की संख्या - 15(पंद्रह) प्रोत्साहन धनराशि - रु.1500/- प्रति व्यक्ति

(ग) मूल्यांकन

इस योजना के अंतर्गत प्राप्त प्रविष्टियों का मूल्यांकन निदेशक महोदय द्वारा गठित मूल्यांकन समिति द्वारा किया जाएगा। समिति की संस्तुतियों के आधार पर अंतिम निर्णय निदेशक महोदय द्वारा लिया जाएगा।

इस योजना में सम्मिलित होने के लिए सहकर्मियों को योजना अवधि की समाप्ति के उपरांत अपने विभागाध्यक्ष/अनुभागाध्यक्ष के माध्यम से निर्धारित प्रपत्र पर आवेदन करना होगा।



हिंदी अधिकारी

प्रतिलिपि -

1. राकास के सभी सदस्य
2. सभी विभागाध्यक्ष/अनुभागाध्यक्ष
3. सूचना पट्ट
4. प्रभारी, एनएमसी - संस्थान की वेबसाइट पर अपलोड करने के लिए